

द्वारका इंटरनेशनल स्कूल

नमूना प्रश्न पत्र (सत्र : 2019-2020)

कक्षा-छठी, विषय - हिंदी

समय - 3 घंटे

पूर्णांक - 80

निर्देश : 1. इस प्रश्नपत्र में चार खंड हैं ।

2. प्रत्येक खंड के उत्तर देना अनिवार्य है ।

3. यथासंभव प्रश्नों के उत्तर क्रम से दें ।

खंड-क' (अपठित बोध)

1. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

(10*1 =10)

क) डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा - मुझे याद है, जब मैं प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो हमारे शिक्षक ने हमें बताया था कि -पक्षी कैसे उड़ते हैं ? वे हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए थे । वहाँ उन्होंने हमें बड़ी बारीकी से पक्षियों के उड़ने के बारे में बताया । उनके द्वारा दिए गए जीवंत उदाहरण से वह यादगार घटना मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई । कलाम जी का कहना है कि विद्यालयों में हमारी शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा में ही होना चाहिए । उनके अनुसार किसान, मज़दूर, दस्तकार, आदि सभी हमारे राष्ट्र का अभिन्न अंग हैं । राष्ट्र निर्माण में इनकी सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हमें अपने बच्चों में इन क्षेत्रों के प्रति रुझान पैदा करना चाहिए । कलाम जी ने कहा की- ऊँचा लक्ष्य निर्धारित करने में बाधाएँ तो आती हैं । परंतु कठोर परिश्रम और सूझबूझ से इन बाधाओं को पराजित किया जा सकता है ।

क) कौन सी घटना कलाम के मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई ?

2

ख) हमारी शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए ?

2

ग) कौन हमारे राष्ट्र का अभिन्न अंग हैं ?

2

घ) कठोर परिश्रम और सूझबूझ से क्या संभव है ?

2

ङ) 'सूझबूझ' शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए ।

1

च) 'अध्यापक' का समानार्थी शब्द गद्यांश में से छाँटकर लिखिए ।

1

खंड-ख (व्याकरण)

2. 'प्रेम' व 'इच्छा' शब्दों के विलोम शब्द लिखिए ।

2

3 निम्नलिखित श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए :- अली-अलि , आदि-आदी

2

4. निम्नलिखित वाक्यों में कारक विभक्ति द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

2

क) संदूक -----कपड़े रखे थे ।

ख) वह चाकू -----सब्जी काटता है ।

- 5 निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए - 2
 क) चारों ओर चक्कर लगाना - ख) शिक्षा देने वाला -
6. निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का काल लिखिए - 2
 क) वर्षा हो रही है ।
 ख) सब्जियाँ बिलकुल ताज़ी थी ।
7. निम्नलिखित अधूरी लोकोक्तियों को पूर्ण कीजिए 2
 क) मान न मान -----
 ख) घर की मुर्गी-----
8. निम्नलिखित विराम चिह्न का प्रयोग कर वाक्य बनाइए - 2
 क) (|) पूर्ण विराम
 ख) (,) अल्प विराम
9. निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्यायवाची लिखिए - पक्षी, तलवार 2
- 10 निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए - 2
 क) मुझे भारी दुख हुआ ।
 ख) उसने हाथ जोड़ा ।
- 11 निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए - 2
 क) बीता हुआ समय -----काल कहलाता है ।
 ख) जानने की इच्छा रखने वाला -----कहलाता है ।

खंड-ग (साहित्य)

12. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर दीजिए - (2*3=6)
 क) कविता में बच्ची छोटी होने की कल्पना क्यों करती है ?
 ख) 'वन के मार्ग में' कविता के आधार पर दोनों सवैयों में अंतर स्पष्ट कीजिए ।
 ग) क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चों को छलती है ?
 घ) कविता में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा जी क्या बताना चाहती है ?

- 13 . निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए - (1*4 =4)

- क) काली घटा किसका प्रतीक मानी गई है ?
 ख) लक्ष्मीबाई किसकी मुँहबोली बहन थी ?

ग) पानी लेने कौन गए है ?

घ) 'अभी और कितना चलना है।' किसने किससे कहा ?

ङ) 'मैं सबसे छोटी होऊँ' कविता के रचनाकार का नाम लिखिए ।

14 . निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर दीजिए -

(2*3 =6)

क) हेलेन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी ?

ख) गाँधी जी आश्रम में काम करने का कौनसा तरीका अपनाते थे ?

ग) बाँस से बनी चीजों में आपको सबसे आश्चर्यजनक आपको क्या लगा और क्यों ?

घ) बाँस की कटाई से टोकरी बनने तक का सफ़र अपने शब्दों में कीजिए ।

15 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए -

(1*4 =4)

क) जादूगर की कब्र से क्या मिला ?

ख) खपच्चियाँ किससे काटी जाती है ?

ग) गाँधी जी के आश्रम का नाम लिखिए ।

घ) 'आगंतुक' 'क्षमा' शब्दों के अर्थ लिखिए ।

ङ) हेलेन केलर कौन थी ?

16 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

(2+3 =5)

क) व्यापारी पेरिस जाकर क्यों रहने लगा ?

ख) राम ने दक्षिणा क्यों लौटा दी ?

खंड-घ (लेखन)

17. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर(75-80 शब्दों में) अनुच्छेद लिखिए-

5

क) समय का महत्त्व

जीवन की सार्थकता समय का सदुपयोग उन्नति के शिखर पर पहुँचने का साधन

ख) संगति का प्रभाव

एक-दूसरे के साथ बैठना अच्छे व बुरे व्यक्ति का प्रभावकुसंगति से बचनाअपनी सूझ-बूझ का प्रयोग

18. आप कक्षा में प्रथम आए हो इसकी सूचना देते हुए अपने पिता जी को पत्र लिखिए ।

5

अथवा

चिकित्सा अवकाश के लिए प्रधानाचार्या को पत्र लिखिए ।

19 'निखार साबुन' के लिए(35-40 शब्दों में) विज्ञापन रचना कीजिए ।

5

अथवा

'शिल्पा बिंदी' के लिए(35-40 शब्दों में) विज्ञापन रचना कीजिए ।

20 पिकनिक पर जाने की अनुमति माँगते हुए पिता और पुत्र के बीच(40-50 शब्दों में) संवाद लिखिए । 5

अथवा

हिंदी नोटबुक गुम हो जाने पर अध्यापिका और छात्र के बीच (40-50 शब्दों में) संवाद लिखिए ।

21. दिये गए चित्र में से किसी एक चित्र का वर्णन (35-40) शब्दों में कीजिए - 5

क)



ख)



